



Date: 30.07.2024

KEI Industries Limited

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527 Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2024-25

The Manager, Listing Operation, BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of Un-Audited Financial Results of the Company for the First Quarter ended on 30th June, 2024. The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Business Standard (All editions) in English Language on 30.07.2024.
- 2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 30.07.2024.

This is for the information of the exchange and the members.

Yours truly, For KEI INDUSTRIES LIMITED

For KEI INDUSTRIES LIMITED

(Kishore Kunal)

VR (Sprome Finance) Company Secretary

VP (Corporate Finance) & Company Secretary

CC:

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

The Calcutta Stock Exchange Ltd. The Senior Manager, Listing Division, 7, Lyons Range, Kolkata-700001

Works-1: Bhiwadi: SP-919/920/922, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); Tel: 01493-220106/221731, Fax: 01493-221780; E-mall: bhiwadi@kei-ind.co works-1 : binwaii : or-yiyyzzuyzz, kiiCo inaustnai Area, friase-iii, binwaii, Dist. Anwar-301019 (kajasman); II : 01493-6200 (221-131; Fax: 01493-221/80; E-mail: nauwaii@kei-iind.com Works-II : Silvassa: 99/27/, Madhwaba industria Estare, Rakholi, Silvassa u TO foladra & Nagar Haveli and Damna & Diu-39620, Telt. +917-359344404/759244404; E-mail: niivassa@kei-ind.com Works-III : Chopanki: A-280-284 RIICO Industrial Area (Chopanki) Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); E-mail: chopanki@kei-ind.com Nirvan Corporate, 7th Floor, Opposite Aghadi Nagar, Pump House, Jijanta Road, Andheri East, Mumbai: Nirvan Corporate, 7th Floor, Opposite Aghadi Nagar, Pump House, Jijanta Road, Andheri East, Mumbai-400093; Tel: 91-22-28239673/28375642; E-mail: numbai@kei-ind.com Cffices (Solkata: Arhanth Benchmart, 4th Floor, 113-17, Mathesbundrola Road, Kolkata: Ondotof; Tele: 033-4062082040620821; E-mail: kolkata@kei-ind.com No.04, (Old No.23) SIR C P Ramasamy Road, 2th Floor, Near Apollo Spectra Hospital, Alwarpet, Chennai-600018; Tel: 044-42009120



Rahul slams Budget, says BJP betrayed middle class

New Delhi, 29 July

eader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on Monday said the Union Budget for FY25 betrayed the middle class by increasing the tax on the long-term and short-term capital gains and removing the benefit of indexation. He claimed the middle class, which, he said, has been the ruling party's core support base, were now deserting it.

Participating in the discussion on the Budget in the Lok Sabha, Gandhi faulted Centre's Employment-Linked Incentive (ELI) Scheme, which, he said, focuses on the top 500 companies that employ merely a per cent of the workforce, but ignores the informal sector. The Congress leader said 99 per cent of the vouth will not benefit from the scheme. In an explanatory note that the Congress released later in the day on Gandhi's speech, the party asked how 500 companies with 7 million employees could hire 10 million interns.

In his 40-minute speech in the Lok Sabha, Gandhi spoke of the atmosphere of fear in the country, which, he alleged, also pervaded the Bharatiya Janata Party (BJP). "Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, and farmers are terrified, workers, youngsters...?"


The answer, Gandhi said, was in a group of six men trapping the entire country in a chakravyuha, which he promised the INDIA bloc would shatter. Explaining the mythological context of the chakravyuha, a multi-layered battle formation referred to in the epic Mahabharata, Gandhi said it involved thousands of troops but six men controlled it at its core. He said these men used the chakravyuha formation to trap and slay Pandava warrior Abhimanyu.

Gandhi said another name for the

FACE-OFF OVER AGNIVEERS



Leader of Opposition Rahul Gandhi said youth had been trapped in Agniveer chakravyuh as no provisions had been made in Budget for their pension



Defence Minister Rajnath Singh said the LoP was trying to mislead the nation about the sensitive issue of national security and the Agnipath initiative

chakravvuha is nadmavvuha, or lotusshaped formation (the BJP's election symbol). He said a padmavyuha had been devised in the 21st century to trap India's youth, women, small, and medium businesses. Gandhi said six people control it at its core, whom he named, including Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah, and others.

Lok Sabha Speaker Om Birla intervened to remind Gandhi, as he did on several occasions during the Congress leader's speech, of parliamentary rules of procedure, such as not taking the names of people who are not members of the House. Later, in a post on X, Gandhi said, "Today a 21st century lotus-shaped *Chakravyuh* is trapping India and is controlled by six figures: Narendra Modi, Amit Shah, Adani, Ambani, Ajit Doval, and Mohan Bhagwat."

In his speech in the LS, Gandhi identi-

fied "three forces" that run the chakravyuha - big businesses or monopoly capital, central agencies, such as the Enforcement Directorate, Income Tax Department and Central Bureau of Investigation, and the political executive. He said the expectation was that the Budget would weaken the chakravyuha to help India's farmers, youth, and workers. But, the intent has been to strengthen this framework of big business and political monopoly that destroys democracy.

Gandhi said the Budget reduced the allocation for education, and was silent on pensions for Agniveers. Speaking in the Lok Sabha shortly after Gandhi's speech, Defence Minister Rajnath Singh accused Gandhi of misleading the nation on the sensitive issue of national security and the Agnipath initiative. Singh said he was ready to make a statement on the issue.

Centre's debt could rise to ₹185 trn in FY25



India only nation where petrol, diesel prices fell in



Minister Hardeep Singh Puri on Monday said India was ily country where rates of petrol and diesel have come down between November 2021 and April 2024. Replying to various queries during Question Hour in the Rajya Sabha, the minister said the government was encouraging dialogue between oil-marketing companies and dealers regarding margins for the latter. Puri said that petrol and diesel were deregulated

during the UPA govern-

The government estimates its debt, including external borrowing, valued at current exchange rate and public account and other liabilities will increase to ₹185 trillion, or 56.8 per cent of the gross domestic product (GDP), during the current financial year. The total debt stood at ₹171.78 trillion, or 58.2 per cent of the GDP, at the end of March 2024, Minister of State for

Finance Pankaj Chaudhary said in a written reply to the Lok Sabha on Monday. According to the International Monetary Fund, World Economic Outlook, India's GDP at current prices has reached \$3.57 trillion in FY24, he said. Replying to another question, Chaudhary said the growth rate of the private final consumption expenditure at constant prices in FY23 and FY24 is 6.8 per cent and 4 per cent, respectively.

Fake ITC claims detection by central GST officers up 51%

Fake input tax credit (ITC) claims detection by central GST officers increased 51 per cent to ₹36,374 crore in

2023-24, Parliament was informed on Monday. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary shared details of the fake ITC cases booked by central tax formations during the 2022-23 and 2023-24 financial years in a written reply to the Lok Sabha. During 2023-24, 9,190 cases were

booked by the central goods and services officers, involving fake ITC of ₹36.374 crore.

Airlines sensitised to exercise moderation in airfares: Govt

Airlines have been advised to self-regulate as well as sensitised to exercise moderation in pricing of air

tickets, the civil aviation ministry told the Rajya Sabha on Monday. There have been concerns over high airfares, especially during peak and festival seasons. Minister of State for Civil Aviation Murlidhar Mohol said the ministry holds talks with

airlines and the representatives are advised to self-regulate and keep passengers' interest in mind while fixing the airfares. PTI this period.

India lost 528 elephants to unnatural causes in 5 yrs

India lost 528 elephants in the past five vears due to unnatural



causes. including soning, electrocution, and train accidents, the government informed Parliament on Monday.

In response to a question by BJP MPs Jayanta Kumar Roy and Sangeeta Kumari Singh Deo, Union Minister of State for Environment Kirti Vardhan Singh told the Lok Sabha that 392 elephants died from electrocution and 73 were killed in train accidents during

Naidu suggests 'P4' model to resolve wealth concentration

At NITI Aayog meet, Andhra CM says job creation should be a national priority

ARCHIS MOHAN New Delhi, 29 July

Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu has flagged his concern over the increasing concentration of wealth, which India could address by adopting the 'P4' model that stands for public-private-people partnerships

At the NITI Aayog Governing Council meeting on Saturday, some of Naidu's suggestions on ensuring "zero poverty", states devising their own demographic management plans, and interlinking of rivers found mentions in Prime Minister Narendra Modi's concluding remarks at the conclave.

Naidu suggested that the Centre should prepare a road map for the interlinking of rivers and states should come up with their respective demographic management plans as India's demographic dividend will diminish by 2047.

The Andhra Pradesh chief minister said a large part of India's growth had historically been predicated on tried and tested models like PPPs. "Undoubtedly, wealth has been created, but it remains concentrated in a few hands," he said,



Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu suggests "zero poverty" as the short-term national goal

according to a copy of the speech he delivered at the NITI Aayog meeting.

On the "P4 model", Naidu said: "The top 10 per cent of the population should adopt and handhold the bottom 20 per cent of the population as a social responsibility." He said the goal should be to ensure "zero poverty" in the short term, "continuous empowerment in the medium term," and the long-term aim should

be to "significantly" bridge the gap "between the haves and have-nots."

The Andhra Pradesh CM said the "singular goal" of all development measures should be employment generation. "This should be our national priority," he said. "Instead of how much money will be invested, we should be asking how much employment will be generated," he said, according to a copy of the speech he delivered at the NITI Aayog Governing Council meeting.

"Not only should we generate ample (employment) opportunities internally, we should emerge as the most important source of the global workforce. Ultimately, India's strength is its people," he said.

On the linking of rivers, Naidu said the Golden Quadrilateral road network paved the way for the enhanced quality of roads and expressways in the country. "A similar revolution in the availability of drinking water, irrigation, and flood avoidance can be achieved by interlinking of rivers," he said.

The Andhra CM spoke about his government's plans to undertake "a comprehensive skill Census" and the need for building marquee Indian brands.





KEI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 020 Phone: 91-11-26818840/26818642

Web: www.kei-ind.com; E-mail Id: cs@kei-ind.com (CIN: L74899DL1992PLC051527) DALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS

| STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2024 | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| | (₹in Million) | | | | | | | | | |
| | | STANDALONE RESULTS | | | | CONSOLIDATED RESULTS | | | | |
| Sr. No | Particulars | Quarter ended 30.06.2024 | Quarter ended 31.03.2024 | Quarter ended 30.06.2023 | Year ended 31.03.2024 | Quarter ended 30.06.2024 | Quarter ended 31.03.2024 | Quarter ended 30.06.2023 | Year ended 31.03.2024 | |
| | | Un-Audited | Audited | Un-Audited | Audited | Un-Audited | Audited | Un-Audited | Audited | |
| 1. | Total Income from Operations | 20,783.43 | 23,344.33 | 17,909.05 | 81,530.96 | 20,783.43 | 23,344.33 | 17,909.05 | 81,530.96 | |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | 2,027.45 | 2,274.37 | 1,630.03 | 7,812.88 | 2,027.45 | 2,274.45 | 1,629.96 | 7,812.88 | |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 2,027.45 | 2,274.37 | 1,630.03 | 7,812.88 | 2,027.45 | 2,272.40 | 1,629.96 | 7,810.83 | |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 1,502.49 | 1,687.87 | 1,213.86 | 5,810.53 | 1,502.49 | 1,684.75 | 1,213.79 | 5,807.33 | |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 1,506.10 | 1,669.99 | 1,212.60 | 5,794.39 | 1,506.10 | 1,665.13 | 1,212.54 | 5,789.41 | |
| 6. | Equity Share Capital | 180.48 | 180.48 | 180.38 | 180.48 | 180.48 | 180.48 | 180.38 | 180.48 | |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year | | | | 31,302.16 | | | | 31,302.16 | |
| 8. | Earning per share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) | | 18 70 | 13.46 | 64.41 | 16.65 | 18 67 | 13.46 | 64.37 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Earning per share (of ₹ 2/- each) | | 18.70 18.67 | 13.46 13.43 | 64.41 | 16.65 16.62 | 18.67 18.64 | 13.46 13.43 | | |

Date: 29 July, 2024

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB. (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website at www.kei-ind.com.

For KEI Industries Limited

Anil Gupta DIN: 00006422



THE ART AND SCIENCE OF INVESTING

(CIN- U65990MH2017PLC294178)

Registered Office: Unit No. B4, 6th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025.

Website: https://mf.whiteoakamc.com Tel. No.: +91(22) 69187607 Email: clientservice@whiteoakamc.com

WhiteOak Capital Asset Management Limited

HOSTING OF ANNUAL REPORT AND ABRIDGED ANNUAL REPORT THEREOF OF SCHEME(S) OF

WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given to all investor(s)/Unit holder(s) of WhiteOak Capital Mutual Fund ("the Fund") that in accordance with Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and circulars issued by SEBI from time to time, the Annual Report and Abridged Annual Report of the scheme(s) of the Fund for the financial year ended March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https://mf.whiteoakamc.com/ and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investors may accordingly view / download the reports from the website of the Fund.

A link to the Annual Report/Abridged Annual Report shall be sent via email to the Investors whose e-mail ids are registered

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the Annual report or Abridged Annual Report, thereof, through any of the following modes:

Email: Send an email to clientservice@whiteoakamc.com

Call: 1800 266 3060(Toll free) from Monday to Friday between 9:00 am to 6:00 pm

Written request: Letter to the registered office of WhiteOak Capital Asset Management Limited i.e., Unit No. B4, 6th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Such copies shall be provided to the unit holders free of cost.

Further, Unit holders are encouraged to register their email id with us for periodic updates on emails.

For WhiteOak Capital Asset Management Limited

(Investment Manager for WhiteOak Capital Mutual Fund)

Authorised Signatory Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

National Bank for Financing Infrastructure and Development

(A Developmental Financial Institution established by an Act of Parliament, The National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021)

Office: The Capital, A- Wing, 15th Floor-1503, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 Tel: (022) 41042000: Website: www.nabfid.org

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

| (₹ in crore) | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
| SI. | | Quarter | Year Ended | | | | |
| No. | PARTICULARS | 30.06.2024 (Reviewed) | 30.06.2023 (Reviewed) | 31.03.2024 (Audited) | | | |
| 1 | Total Income from Operations | 1,084.15 | 426.91 | 2,493.30 | | | |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items) | 476.30 | 360.21 | 1,601.64 | | | |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 476.30 | 360.21 | 1,601.64 | | | |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 476.30 | 360.21 | 1,601.64 | | | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | Refer Note 4 | | | | | |
| 6 | Paid up Equity Share Capital | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserves and including Grant received from GoI) (as per Balance sheet of previous year) | - | - | 8,447.40 | | | |
| 8 | Securities Premium Account | - | - | - | | | |
| 9 | Net worth | 28,987.88 | 26,913.76 | 28,419.40 | | | |
| 10 | Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt | 30,299.05 | 10,000.00 | 25,218.80 | | | |
| 11 | Outstanding Redeemable Preference Shares | - | - | - | | | |
| 12 | Debt Equity Ratio | 1.06 | 0.37 | 0.91 | | | |
| 13 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | | | | |
| | Basic/Diluted | 0.24 | 0.18 | 0.64 | | | |
| 14 | Capital Redemption Reserve | NA | NA | NA | | | |
| 15 | Debenture Redemption Reserve | NA | NA | NA | | | |
| 16 | Debt Service Coverage Ratio | NA | NA | NA | | | |
| 17 | Interest Service Coverage Ratio | 1.93 | 11.71 | 3.13 | | | |
| NOT | <u>E</u> :- | | | | | | |

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity (www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.nabfid.org).
- The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 29, 2024. The Statutory Auditor of NaBFID have carried out Limited Review of the aforesaid
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to Stock Exchanges (i.e. BSE and NSE) and can be accessed on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com). Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not
- yet made applicable. 5 Figures of the previous periods have been regrouped/reclassified wherever considered necessary to conform to current

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai Date: July 29, 2024

period classification.

Rajkiran Rai G. **Managing Director**

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

फोन: 91-11-26818840/26818642

वेबसाइट: www.kei-ind.com, ई-मेल आईडी: cs@kei-ind.com (सीआईएन: L74899DL1992PLC051527)

| (र मिलियन में) | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | ् स्टैंडअलोन परिणाम | | | | समेकित परिणाम | | | | |
| क्र. सं. | विवरण | तिमाही समाप्त | तिमाही समाप्त | तिमाही समाप्त | वार्षिक समाप्त | तिमाही समाप्त | तिमाही समाप्त | तिमाही समाप्त | वार्षिक समाप्त | |
| νι. | | 30.06.2024 अ—लेखापरीक्षित | 31.03.2024 लेखापरीक्षित | 30.06.2023 अ–लेखापरीक्षित | 31.03.2024 लेखापरीक्षित | 30.06.2024 अ–लेखापरीक्षित | 31.03.2024 लेखापरीक्षित | 30.06.2023 अ–लेखापरीक्षित | 31.03.2024 लेखापरीक्षित | |
| 1 | परिचालनों से कुल आय | 20,783.43 | 23,344.33 | 17,909.05 | 81,530.96 | 20,783.43 | 23,344.33 | 17,909.05 | 81,530.96 | |
| <u> </u> | शुद्ध लाभ / (हानि) की अवधि के लिए | 20,700.40 | 20,044.00 | 17,808.05 | 01,000.00 | 20,700.40 | 20,044.00 | 17,303.00 | 01,000.00 | |
| 2. | (कर, अपवाद और/या असाधारण मदों से पहले #) | 2,027.45 | 2,274.37 | 1,630.03 | 7,812.88 | 2,027.45 | 2,274.45 | 1,629.96 | 7,812.88 | |
| 3. | शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले की अवधि के लिए (अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद #) | 2,027.45 | 2,274.37 | 1,630.03 | 7,812.88 | 2,027.45 | 2,272.40 | 1,629.96 | 7,810.83 | |
| 4. | शुद्ध लाभ / (हानि) कर के बाद की अवधि के लिए (अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद #) | 1,502.49 | 1,687.87 | 1,213.86 | 5,810.53 | 1,502.49 | 1,684.75 | 1,213.79 | 5,807.33 | |
| 5. | कुल व्यापक आय अवधि के लिए [शामिल लाम / (हानि) अवधि के लिए (कर पश्चात्) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)] | 1,506.10 | 1,669.99 | 1,212.60 | 5,794.39 | 1,506.10 | 1,665.13 | 1,212.54 | 5,789.41 | |
| 6. | इक्विटी शेयर पूँजी | 180.48 | 180.48 | 180.38 | 180.48 | 180.48 | 180.48 | 180.38 | 180.48 | |
| 7. | संचेय (पुर्नमूल्यांकन संचेय को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है) | | | | 31,302.16 | | | | 31,302.16 | |
| 8. | प्रति शेयर अर्जन (₹2/—प्रत्येक का) (चल रहे तथा बंद परिचालनों हेतु)— | | | | | | | | | |
| Ţ. | 1. मूलः | 16.65 | 18.70 | 13.46 | 64.41 | 16.65 | 18.67 | 13.46 | 64.37 | |
| | 2. तनुकृतः | 16.62 | 18.67 | 13.43 | 64.28 | 16.62 | 18.64 | 13.43 | 64.25 | |

वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिंप्त रूप है। स्टेंडअलोन और समेकित प्रथम तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स <u>www.bseindia.com</u> $\underline{www.nseindia.com}$ और कंपनी की वेबसाइट $\underline{www.kei\text{-}ind.com}$ पर भी उपलब्ध है।

#Ind-AS नियमों / AS नियमों, जो भी लागु हो, के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में अपवाद और / या असाधारण वस्तुओं को समायोजित किया गया कृते केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इस्ताक्षर करने का स्थानः नई दिल्ली देनांकः 29 जुलाई, 2024

हस्ता./-(अनिल गप्ता) ्वयरमैन—सह—मैनेजिंग डायरेक्टर डीआईएनः 00006422

खोया एवं पाया ग्वटटारा जनसाधारण को बडे पैमाने पर सुचित किया जाता है कि तनवी बंसल पति राकेश बंसल निवासी ए1ए/31ए जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 तथा विनोद कुमार अग्रवाल पिता

बैजनाथ प्रसाद निवासी ए1ए/30ए जनकपरी

नई दिल्ली-110058 नीचे उल्लेखित पते ए1ए/27ए जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 पर स्थित सम्पत्ति के स्वत्वाधिकारी हैं जिनसे

श्री सचिन जैन, अपर जिला न्यायाधीश-II, साऊथ

वेस्ट द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय

न्यायालय द्वारा पीसी नं. 5/23 में अनिल कुमार

अग्निहोत्री के पक्ष में पारित ए1ए/27ए जनकपुरी

ऑफ एडमिनिस्टेशन दिनांकित 23.9.2023

गम हो चका है। किसी भी व्यक्ति को अगर

संबंधित दस्तावेज प्राप्त होता है, तो वे

अधोहस्ताक्षरी तनवी बंसल अथवा विनोद अग्रवाल से सम्पर्क नं. 9818681921/ 9311681921 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम

पस्तक भवन'' अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दरभाष: 0755-2550727, 2551565

ई-मेल : info.mptbc@mp.gov.in, वेबसाइट : mptbc.mp.gov.in

शिक्षा सत्र 2025-2026 के लिए पाठ्यपुस्तकों एवं विभिन्न

अन्य पाठ्य सामग्री के मुद्रण हेतु ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

(निविदा क्रमांक-PTG-01/2025-2026)

शिक्षा सत्र 2025-2026 के लिये पाठ्यपुस्तकों एवं विभिन्न अन्य पाठ्य सामग्री

के मुद्रण हेत् ऑफसेट मुद्रणालयों से दिनांक 21.08.2024 समय प्रात:

11.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित है, जो कि ई-टेण्डरिंग पोर्टल https://

mptenders.gov.in पर दिनांक 31.07.2024 समय सायं 05.00 बजे से देखी

जा सकती है। निविदा के संबंध में जानकारी हेतु 24x7 हेल्प डेस्क नम्बर 0120-

4001 002/0120-4200 462/0120-4001 005/0120-6277 787 पर संपर्क

उक्त निविदा का विस्तृत विवरण एवं संशोधन/परिवर्तन/शुद्धिपत्र (यदि कोई होवें)

भोपाल, दिनांक 29.07.2024

प्रबंध संचालक

क्रमांक/715 /पापनि/मद्रण/2024

किया जा सकता है।

तो उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

म.प्र. माध्यम/115608/2024

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड से जाना जाता है) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मुकेश कुमार और संजू देवी** को 25.01.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00383158 की राशि रू.16,97,216.04 (रूपये सोलह लाख सत्तानवे हजार दो सौ सोलह और चार पैसे मात्र) और 17.01.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 25.07.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.16,97,216.04 (रूपये सोलह लाख सत्तानवे हजार दो सौ सोलह और चार पैसे मात्र) 17.01.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ दंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड से जाना जाता है) के आधीन

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

छत/टेरेस के अधिकारों के बिना अर्धनिर्मित दूसरी मंजिल, प्रा./फ्लैट नं.-203, (पीछे की ओर बाईं ओर) संपत्ति बियरिंग नं. 78 में से, एरिया मापन 50 स्क्वेअर यार्ड्स, कुल एरिया मापन 200 स्क्वेअर यार्ड्स में से, खसरा नं. 18/6, 15, 19/10, 11, 16, 17 और 24 में से, गाँव मटिआला के क्षेत्र में स्थित है और नई टी-ब्लॉक से पहचाने जानेवाली कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059, स्टिल्ट में एक टू व्हीलर पार्किंग के साथ और जो निम्ननुसार परिबद्ध है।

पूर्व : उक्त संपत्ति का हिस्सा/ दाहिने हाथ की ओर फ्लैट

पश्चिम : प्लॉट नं. 77

उत्तर : 10 फीट गली दक्षिण : उक्त संपत्ति का हिस्सा/ सामने बाएँ हाथ की ओर फ्लैट

दिनांक : 25.07.2024 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड से जाना जाता था)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

भारत सरकार का उद्यम एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय-एलडीए ऑफिस के सामने, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, ई—मेल— E-Mail- legal_luc@mahabank.co.in, प्रधान कार्यालय—लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे—5

ई-नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आम सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा सहपित नियम 8(6) व 9 (1) of 2002 के अंतर्गत की नीलामी के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना

इस आम सुचना के द्वारा बैंक के अनर्जक खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र बंधक हैं तथा जिनका कब्जा (सांकेतिक / प्रत्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लिया जा चुका है। यह संपत्तियाँ **"जहाँ है जैसी है" "जैसा है जो है" "जहां भी है" तथा "दायित्व रहित**" आधार अनर्जक खातों में ऋण की वसूली हेत् नीचे उलिखित तिथि को ई नीलामी द्वारा विक्रय की जाएंगी। अनर्जक खाते, खाताधारक, जमानतदार, बँक पर बकाया धनराशि, ऑनलाइन नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का प्रकार, विक्रय की धनराशि (RESERVE PRICE), नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली पूर्व वनराशि (EMDAMOUNT) इत्यादि की जानकारी निम्नलिखित है—

ई-नींलामी की दिनांक व समय 🛘 06/09/2024 को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक 🛮 बोली वृद्धि प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार

| | ऋणी/जुमानतदार का | | दी जमा करने की दिनांक व समय—E BIKRA सम्पत्तियों का विवरण | | आरक्षित मल्य |
|----|---|--|---|-------------------|---|
| | नाम एवं पता | | | | धरोहर राशि बोली वृद्धि की राशि |
| | | No. of the last of | शाखा (ARB), लखनऊ | | |
| | 201001 | 36,20,762 / — + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 01.06.2018 से | लॉट सं. 1) सभी भाग व हिस्से निहित मकान नं. जी—134, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश | प्रतीकात्मक कब्जा | ক. 60,00,000 /- ক. 6,00,000 /- ক. 20,000 /- |
| | मेसर्स एमएसएन ट्रेडिंग कंपनी, श्री मोहम्मद नौशाद पुत्र श्री अय्यूब, दिल्ली गेट, जंगला गढ़ी, सराय मियां, कोइल, अलीगढ़–202001 श्री शानू पुत्र श्री मोहम्मद नौशाद, दिल्ली गेट, जंगल गढ़ी, सराय मियाँ, कोइल, अलीगढ–202001 | + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं | लॉट सं. 2) आवासीय संपत्ति नगर निगम संख्या 10/320 (पुरानी) एवं नई संख्या 10/848, खसरा संख्या 2811 (भाग) सराय मियां, जुमगल गढ़ी, दिल्ली गेट, कोइल, अलीगढ क्षेत्रफल—202.98 वर्ग मी., चौहद्दी—उत्तरः दिलशाद का मकान, दक्षिणः सड़क, पूर्वः आबिद का मकान, पश्चिमः असलम का मकान | प्रतीकात्मक कब्जा | ন্ধ. 55,00,000 /- ন্ধ. 5,50,000 / – ন্ধ. 20,000 / – |
| 3. | 1. मेसर्स अग्नि लिमिटेड (ऋणी) CIN U70101DL2000PLC108134 पंजीकृत कार्यालय 34, अनिकांत अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 23, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली— 110096, 2. श्री आलोक अग्निहोत्री (निदेशक और ज़मानतकर्ता), पता—जी—207, अल्फा—॥, ग्रेटर नोएडा 3. श्री आशुतोष अग्निहोत्री (निदेशक और ज़मानतकर्ता), पता—जी—207, अल्फा—॥, ग्रेटर नोएडा 4. श्री विनोद दीक्षित (निदेशक और ज़मानतकर्ता), पता सी—120/0, एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट, सेक्टर—105, नोएडा 5. श्री ईश्वर चंद अग्निहोत्री, पता—जी—207, अल्फा—॥, ग्रेटर नोएडा | संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 15.11.2022 से | लॉट सं. 3) सेक्टर 105 नोएडा बंधककर्ता / ज्ञानतकर्ता –श्री इश्वर चंद अग्निहोत्री —बिलिंडग एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट अपार्टमेंट नंबर 120 डी क्षेत्रफल—153 वर्ग मीटर (कार्पेट) अर्थात 153 वर्ग मीटर (निर्मित) जिसमें 3 बीएचके कमरे शामिल हैं। सभी भाग व हिस्से जो ग्राम सेक्टर 105 में स्थित हैं और पंजीकरण जिले जीबी नगर उप जिला नोएडा में हैं, फ्लैट नंबर 120 डी तीसरी मंजिल। चौहददी—:उत्तर—साइट योजना के अनुसार, दक्षिण—साइट योजना के अनुसार, पूर्व—साइट योजना के अनुसार, पश्चिम—साइट योजना के अनुसार, | प्रतीकात्मक कब्जा | ড. 70,00,000 /- ড. 7,00,000 /- ড. 20,000 /- |
| 4. | 1. मैसर्स आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रो. राज कुमार, 2 शारदा पुरी खांकर खेड़ा मेरठ 2. श्री राज कुमार, 2 शारदा पुरी खांकर खेड़ा मेरठ 3. श्री मुकेश कुमार वर्मा 512 माधव पुरम मेरठ | + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं | लॉट सं. 4) संपत्ति खसरा संख्या 179/2, मोहल्ला हरि नगर, कांकेर खेड़ा नेरठ, क्षेत्रफल 255 वर्ग मीटर चौहद्दी—उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः 20 फीट रोड, पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य संपत्ति, | प्रतीकात्मक कब्जा | ক. 25,00,000 /- ক. 2,50,000 / - ক. 20,000 / - |
| 5. | 1.श्रीमती शाहीन अख्तर पत्नी जावेद अख्तर, जी 2 रिज़वी अपार्टमेंट मेडिकल रोड जामिया उर्दू दोधपुर कोइल अलीगढ़ 202001 2. श्री इसनैन अख्तर पुत्र जावेद अख्तर, जी 2 रिज़वी अपार्टमेंट मेडिकल रोड जामिया उर्दू दोधपुर कोइल अलीगढ़ 202001 | + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं | लॉट सं. 5) आवासीय डबल स्टोरी मकान क्षेत्रफल 111.47 वर्गमीटर (133.33 वर्ग गज) जो कि खेत संख्या 470 का हिस्सा है, स्थित पटवारी का नगला बरौली बाईपास रोड मौजा रामगढ़ पुंजूपुर पोस्ट व तहसील कोइल अलीगढ़ यूपी 202001 चौहद्दी:—पूर्व— एरिया 25 फीट अन्य प्लॉट के बाद, पश्चिम— एरिया 25 फीट रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर— एरिया 48 फीट प्लॉट मोहम्मद सलीम इसराइली के बाद, दक्षिण— एरिया 48 फीट उसके बाद लॉट गिजाला तबस्सम | प्रतीकात्मक कब्जा | জ. 55,00,000 /- জ. 5,50,000 /- জ. 20,000 /- |

नोटः उपरोक्त सभी सम्पित्तियों पर भार / अन्य चार्ज इत्यादी की जानकारी—: प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान मे किसी तरह का भार / अन्य चार्ज जानकारी में नही है।

विक्रय निर्धारित निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के कठोरता से अनुपालन की शर्त पर है और "जैसा है जहाँ है" तथा ""जो कछ भी है वही है" दायित्व रहित आधार पर किया जायेगा।

1. यह बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों द्वारा अनुशासित हैं एवं निम्नलिखित विशिष्ट नियम एवं शर्तों के अधीन है:

2. उल्लिखित सम्पत्ति हेतु नीलामी विक्रय केवल वेबसाइट https://ebkray.in/eauction-psb के माध्यम से "ऑनलाइन ई— नीलामी / संविदा" के माध्यम से उपर लिखित तिथि को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक सम्पन्न होगी। नीलामी के अन्तिम 10 मिनटों में संविदा प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक 10-10 मिनट के असीमित विस्तार दिया जायेगा । संविदाकार सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन संविदा के दौरान अपने प्रस्ताव सम्पत्तियों के सामने लिखित राषी के गुणक में बढ़ा सकेंगे ।

3. संविदाकार द्वारा ईएमडी सहित ऑनलाइन संविदा हेतु केवाईसी जमा करने उपरोक्त सम्पत्तियों हेतु अन्तिम तिथि PSB

Alliance(https://ebkray.in/eauction-psb) के अनुसार। 4. ई— नीलामी के इच्छुक भागीदार विक्रय सूचना की प्रतियाँ, ई— नीलामी के नियम एवं शर्ते, ई—नीलामी के प्रचालनातमक भाग के हेल्प मैनुअल ई— विक्रय—आईबीएपीआई

पोर्टल (https://ebkray.in/eauction-psb) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं 5. इच्छक संविदाकार / क्रेता से अपने मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आईडी का प्रयोग करते हुए पोर्टल (https://ebkray.in/eauction-psb) पर पंजीकृत होने का

नेवेटन किया जाता है। पन: उन्हें अपेक्षित केवार्डमी ट्रम्तावेज अपलोड करने हैं। ई— नीलामी सकता है। इच्छक संविदाकारों / क्रेताओं को अपने ग्लोबल वालेट में ऑनलाइन / चालान वेबसाईट माध्यम का प्रयोग करते हुए ईएमडी राशि अन्तरित करनी होगी। उसके वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने के पश्चात ही इच्छुक संविदाकार ई—नीलामी की तिथि पर बोली लगाने में सक्षम होंगे।

6. उपर्युक्त जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (https://ebkray.in/eauction-psb) से चालान सृजित करने के उपरान्त अथवा ऑनलाइन माध्यम से संविदाकार के ग्लोबल वालेट में जमा करनी होगी। तत्पष्चात नियत तिथि को बोली लगाई जा सकती है। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविदाकार स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविदाकारों को ई— नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी । जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया

7. संविदाकार एक या सभी सम्पत्तियों, जैसी स्थिति हो, के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं। एक से अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्ताव की स्थिति में संविदाकार को प्रत्येक सम्पत्ति के लिए ईएमडी जमा करनी होगी। बोली के समय संविदाकार के ग्लोबल वालेट में पर्याप्त राशि (ईएमडी राशि के बराबर या अधिक) होनी चाहिए।

8. विक्रय सचना, ई- नीलामी के नियम एवं शर्ते, ई- नीलामी के प्रचालनात्मक भाग का हेट्य मैनुअल उचित रूप से पढ़ना तथा उसका दृढता से अनुपालन करना इच्छक संविदाकार (रों) का उत्तरदायित्व है।

9. ई-नीलामी प्रक्रिया के पूर्व या उसके दौरान किसी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता के लिए हमारे ई- नीलामी सेवा प्रदाता https://ebkray.in/eauction-psb के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें। जिसका विवरण ई—नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।

10. प्राधिकत अधिकारी द्वारा ई— नीलामी को अन्तिम स्वरूप दिये जाने के बाद केवल सफल संविधाकार को हमारे उपर्यक्त सन्दर्भित सेवा प्रदाता द्वारा ई—मेल के माध्यम से

सूचित किया जायेगा। (उसके द्वारा प्रदत्त मोबाइल नम्बर/ई–मेल पते पर/ सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत) 11. प्रतिभूत आस्ति आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

12. सफल संविदाकार को जमा की गयी ईएमडी राशि घटाकर संविदा राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन या अधिकतम अगले कार्यदिवस तक बैंक में सीधे जमा करनी होगी तथा शेष राशि नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से खाता नाम— SARFAESI AUCTION ACCOUNT, खाता सं. 60441918056. IFSC कोड: MAHB0001281 बैंक ऑफ महाराष्ट्र विकास नगर, लखनऊ मख्य शाखा में जमा करना होगी। उपर्युक्त निर्धारित समय—सीमा के भीतर राशियों के जमा करने में असफल होने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि बैंक द्वारा जब्द कर ली जायेगी और

SARFAESI अधिनयम, 2002 के प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की नई नीलामी / बिक्री करने का अधिकार होगा तथा चुककर्ता संविदाकार का जब्त

की गयी राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। 13. संविदाकारों के लिए चेतावनी: (31) बँक के पूर्ण संज्ञान में सम्पत्ति पर कोई ऋणभार ज्ञात नहीं है। फिर भी, इच्छक संविदाकारों को ई— नीलामी प्रक्रिया में अपनी संविदा जमा करने से पूर्व ऋण भारी, नीलामी पर रखी सम्पत्ति के स्वामित्व, सम्पत्ति का भौतिक क्षेत्रफल तथा दावों /अधिकारों /बकाया/सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। पूनः संविदाकारों को बोली लगाने से पूर्व किसी विधिक बकायों, कर के बकायों, दावों आदि के विषय में स्वयं अपनी निजी पूछताछ कर लेनी चाहिए। ई— नीलामी विज्ञान बैंक की ओर से किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधिन को न तो निर्मित करता है और न निर्मित करेगा। यह सम्पत्ति बैंक की जानकारी या गैर— जानकारी में समस्त वर्तमान तथा भावी ऋणभारों सहित बिक्री की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी भी प्रकार से

किसी दावे / अधिकार / बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। (a) बैंक बिक्री हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी अनुमति / लाइसेंस, एनओसी आदि के लिए अथवा कथित सम्पत्ति की बिक्री के परिप्रेक्ष्य नथा / अथवा सम्बन्ध में किसी बकाये जैसे पानी / सेवा प्रभार के बकाये, अन्तरण शुल्क, नगर निगम / स्थानीय प्राधिकरण / सहकारी आवास समिति के बकाये या कोई अन्य बकाये, कर, लेवी, शुल्क, अन्तरण शुल्क, यदि कोई हो, का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। सफल संविदाकार को सम्पत्ति के क्रय से सम्बन्धित आयकर के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा

तथा प्रयोज्य दरों के अनुसार प्राधिकारणों को कर अदा करने होंगे। (स) संविदाकारों को सम्बद्ध राजस्व रिकार्ड /अन्य विधिक प्राधिकरणों जैसे विक्रय कर/आबकारी/आयकर आदि से सत्यापित करने की सलाह/ चेतावनी दी जाती है तथा अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व स्वयं को सम्पत्ति की प्रकृति, विवरणा दशा, ऋण, भार, लिएन, प्रभार, विधिक बकायों आदि के विषय में सन्तुष्ट कर लेना चाहिए।

(द) संविदाकारों को संविदा जमा करने तथा ऑनलाइन बोली / नीलामी में भाग लेने से पूर्व बिक्री के समस्त नियम एवं शर्तों तथा साथ ही संगत सार्वजनिक बिक्री सूचना के विस्तृत विवरण को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है।

(य) बिक्री सूचना / निविदा दस्तावेज में प्रदर्शित सरकार / स्थानीय निकाय के प्रति बकाया विधिक देयताएँ / दायित्व आदि क्रेता(ओं) द्वारा वहन किया जायेगा। (र) बिक्री की सूचना स्थानीय भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है। यदि इसी व्याख्या में कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण को वरीयता दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी

के पास इस आम ई—नीलामी को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इसे निरस्त करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है। 14. संविदाकारों बिक्री के विस्तृत नियम एवं शतों को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है, कृपया बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक

https://www.bankofmaharashtra.in/propsale.asp तथा साथ ही ई-विक्रय पोर्टल https://ebkray.in/eauction-psb देखें या सम्पर्क करें ईमेल—support.ebkray@psballiance.com ई—विक्रय मो. 8291220220 तथा मुख्य प्रबंधक वसूली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश सुगर कार्पोरेशन लिमिटेड, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010 पर संपर्क किया जा सकता है। घीरेन्द्र कुमार (मोबा. -7738340176), श्री मनीष सिंह (मोबा.- 9873894606)

, इस आम सूचना के माध्यम से ऋणी व जुमानतदार को सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा सहप्रतित नियम 8(6) के अंतर्गत नीलामी पूर्व 15/30 दिनों (जो लागू हो) का वैद्यानिक नोटिस भी दिया जाता है।

दिनांकः 30.07.2024

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लखनऊ अंचल

50 years of converting news into economic intelligence.



50 Years of Insight